

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण / Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय / Bid End Date/Time	22-09-2026 21:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय / Bid Opening Date/Time	22-09-2026 21:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से) / Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम / Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम / Department Name	Department Of Defence Production
संगठन का नाम / Organisation Name	Hindustan Aeronautics Limited (hal)
कार्यालय का नाम / Office Name	*****
शिकायत निवारण के संपर्क विवरण / Contact details of Grievance redressal	HOD Email id :lakshmana.bn@hal-india.co.in Buyer Email id: dipakpatil@hal-india.co.in
कुल मात्रा / Total Quantity	50000
वस्तु श्रेणी / Item Category	HLM 10 04 03 , HLM 10 04 14 , HLM 10 04 15 , HLM 10 04 18 , HLM 10 04 20 , HLM 10 05 04 , HLM 10 05 07 , HLM 10 05 08 , HLM 10 05 14 , HLM 10 05 15 , HLM 10 05 16 , HLM 10 05 18 , HLM 10 05 19 , HLM 10 05 20 , HLM 10-04-05 , HLM 12 05 18 , HLM 12 06 18 , HLM 86 05 , HLM 86 06 , HLM 94-05 , HLM10 04 08 , HLM10 04 10 , LN 94 08 015 , LN 94 50 050 , LN 9408 006 , LN 9410 008 , LN 9415 008 , LN 9420 008 , LN 9420 012 , LN 9420 022 , LN 9420 060 , LN 9430 040 , LN 9432 040 , IS 549 1 X 15 , IS 549 1.5 15 , IS 549 1.6X20 , IS 549 2 X 22 , IS 549 2.5X20 , IS 549 2X60 AISI 304 , IS 549 3.2 X 32 AISI 304 , IS 549 AISI 3.2 18 , IS 549-1X30 AISI 304 , IS 549-2.5X40 AISI 304 , EN 2367 14 018 , EN 2367 18 020 , EN 2367 18 028 , EN 2367 23 028 , 3 X 40 IS-549 AISI304 , 2 X 20 IS-549 AISI304
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS	hi lock pins, split pins, hi lock collar
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Freight Containers - High Security Cable Seal as per IS 17381:2021, Access Controlled Handle Door Lock, Padlocks (ताले) conforming To Is 15275, Pin Up Notice Board (V2)
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	Split or Cotter Pin
बीओक्यू शीर्षक / BOQ Title	PROCUREMENT OF AEROSPACE GRADE FASTENERS PINS

बिड विवरण/Bid Details	
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Certificate (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	2
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	Yes
रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/RA Qualification Rule	H1-Highest Priced Bid Elimination
क्रेता के लिए उपलब्ध आईटीसी/ITC available to buyer	Yes
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	HLM 10 04 03
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	7 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Payment Timelines	Payments shall be made to the Seller within 30 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Item wise evaluation

बिड विवरण/Bid Details	
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं/सेवा प्रदाता को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% / Purchase Preference to MSE OEMs/ Service Provider available upto price within L1+X%	15

सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माता/सेवा प्रदाता को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Percentage of Bid quantity/amount for MSE OEMs/ Service Provider Purchase preference	25
---	----

ट्रेड्स भुगतान संबंधी विवरण/TReDS Payment Details

This Bid provides for Trade Receivables Discounting System (TReDS) as Preferred mode of payment. For MSME sellers, payments may be processed through a TReDS exchange in which the Buyer is registered, subject to applicable policy and regulatory guidelines. Accordingly, sellers intending to avail payment through TReDS are required to be registered with at least one TReDS exchange in which the buyer is registered.

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry .Benefits of MSE will be allowed only if seller/service provider is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

2. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Certificate and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service, and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted in case of product bids, whereas in case of services the eligibility is automatically validated. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

4. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

If the buyer has mentioned MSE purchase preference in ATC then service provider is required to upload necessary documents for MSE purchase preference for verification by the buyer during evaluation.

एक्सेल में अपलोड किए जाने की आवश्यकता /Excel Upload Required :

TERMS AND CONDITIONS - [1788231197.xlsx](#)

मूल्यांकन विधि(मदवार मूल्यांकन विधि) / Evaluation Method (Item Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedule wise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

मूल्यांकन अनुसूचियां / Evaluation Schedules	वस्तु/श्रेणी / Item/Category	मात्रा / Quantity
Schedule 1	Hlm 10 04 03	1000
Schedule 2	Hlm 10 04 14	1000
Schedule 3	Hlm 10 04 15	1000
Schedule 4	Hlm 10 04 18	1000
Schedule 5	Hlm 10 04 20	1000
Schedule 6	Hlm 10 05 04	1000
Schedule 7	Hlm 10 05 07	1000
Schedule 8	Hlm 10 05 08	1000
Schedule 9	Hlm 10 05 14	1000
Schedule 10	Hlm 10 05 15	1000
Schedule 11	Hlm 10 05 16	1000
Schedule 12	Hlm 10 05 18	1000
Schedule 13	Hlm 10 05 19	1000
Schedule 14	Hlm 10 05 20	1000
Schedule 15	Hlm 10-04-05	1000
Schedule 16	Hlm 12 05 18	1000
Schedule 17	Hlm 12 06 18	1000
Schedule 18	Hlm 86 05	1000
Schedule 19	Hlm 86 06	1000
Schedule 20	Hlm 94-05	2000
Schedule 21	Hlm10 04 08	1000
Schedule 22	Hlm10 04 10	1000
Schedule 23	Ln 94 08 015	1000

Schedule 24	Ln 94 50 050	1000
Schedule 25	Ln 9408 006	1000
Schedule 26	Ln 9410 008	1000
Schedule 27	Ln 9415 008	1000
Schedule 28	Ln 9420 008	1000
Schedule 29	Ln 9420 012	1000
Schedule 30	Ln 9420 022	1000
Schedule 31	Ln 9420 060	1000
Schedule 32	Ln 9430 040	1000
Schedule 33	Ln 9432 040	1000
Schedule 34	Is 549 1 X 15	1000
Schedule 35	Is 549 1.5 15	1000
Schedule 36	Is 549 1.6x20	1000
Schedule 37	Is 549 2 X 22	1000
Schedule 38	Is 549 2.5x20	1000
Schedule 39	Is 549 2x60 Aisi 304	1000
Schedule 40	Is 549 3.2 X 32 Aisi 304	1000
Schedule 41	Is 549 Aisi 3.2 18	1000
Schedule 42	Is 549-1x30 Aisi 304	1000
Schedule 43	Is 549-2.5x40 Aisi 304	1000
Schedule 44	En 2367 14 018	1000
Schedule 45	En 2367 18 020	1000
Schedule 46	En 2367 18 028	1000
Schedule 47	En 2367 23 028	1000
Schedule 48	3 X 40 Is-549 Aisi304	1000
Schedule 49	2 X 20 Is-549 Aisi304	1000

HLM 10 04 03

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 04 14

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 04 15

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 04 18

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 04 20

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 04

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 07

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 08

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 14

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 15

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 16

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 18

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 19

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10 05 20

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 10-04-05

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 12 05 18

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 12 06 18

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 86 05

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 86 06

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM 94-05

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	2000	60

HLM10 04 08

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

HLM10 04 10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 94 08 015

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 94 50 050

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9408 006

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9410 008

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9415 008

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9420 008

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9420 012

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9420 022

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9420 060

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9430 040

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

LN 9432 040

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549 1 X 15

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549 1.5 15

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549 1.6X20

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549 2 X 22

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549 2.5X20

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549 2X60 AISI 304

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549 3.2 X 32 AISI 304

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549 AISI 3.2 18

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549-1X30 AISI 304

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

IS 549-2.5X40 AISI 304

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

EN 2367 14 018

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

EN 2367 18 020

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

EN 2367 18 028

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

EN 2367 23 028

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

3 X 40 IS-549 AISI304

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

2 X 20 IS-549 AISI304

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) तथा रिवर्स प्रभार (आरसीएम)/Input Tax Credit(ITC) and Reverse Charge(RCM) Details

जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट /ITC on GST	जीएसटी उपकर कर क्रेडिट /ITC on GST Cess
100%	100%

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****BANGALORE CITY	1000	60

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Generic**

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- a. Copy of PAN Card.
- b. Copy of GSTIN.
- c. Copy of Cancelled Cheque.
- d. Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

2. **Certificates**

Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

3. **Generic**

Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

4. **Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 50 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 50% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

5. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer, is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. All representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM. If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents (other than EMD and signed Integrity Pact - which can be submitted within 5 days of bid opening) in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.

6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---